



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1935 (श0)  
(सं0 पटना 762) पटना, मंगलवार, 1 अक्टूबर 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना  
03 सितम्बर 2013

सं0 22/नि0सि0(दर0)-16-05/2012/1045—श्री सुरेश प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, वीरपुर को उक्त पदस्थापन के दौरान दिनांक 6.7.12 को पश्चिमी कोशी मुख्य नहर (नेपाल भाग) के दौरे बांध के कि0मी0 11.785 पर 06 जुलाई 2012 को रात्रि में हुए टुटान के स्थल निरीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के समीक्षणोपरान्त कर्तव्यों के प्रति धोर लापरवाही बरतने एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना करने इत्यादि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-754 दिनांक 7.7.12 द्वारा श्री प्रसाद को निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1187 दिनांक 18.10.12 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में श्री सुरेश प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता (निलंबित) दिनांक 31.7.13 को सेवानिवृत्त हो गये। अतः मामले के समीक्षणोपरान्त सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के आलोक में श्री सुरेश प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, वीरपुर को सेवानिवृत्ति की तिथि 31.7.13 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) में सम्पूरित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
गजानन मिश्र,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 762-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>